

01.11.2023

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 Tel No.022-22722039/37/3121 Security Code: 500119

Dear Sir,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published today pertaining to the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September 2023, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Headings of column "Year Ended" 30/Sept/23 and 30/Sept/22 be read as "Half Year Ended" 30/Sept/23 and 30/09/2022. This is due to a printing error.

A corrigendum notice is being published in the same newspapers for rectification.

The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: www.dhampursugar.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel Company Secretary M. No. 22787 e2W REGISTRATION

Share of top 4 races to 90% in Oct from 72% in Jan


New Delhi, 31 October

hree electric two-wheeler makers — Ola Electric, TVS, and Bajaj — collectively cornered 75 per cent of vehicle registrations in this space in October, during the peak festival season. After including the share of Ather, which was at the fourth spot in terms of e2W registrations during the month, the cumulative figure goes up to 90 per cent — a sign of accelerated consolidation in a market that has over 125 players.

In January this year, the top three players accounted for over 60 per cent of the market, while the top four had 72 per cent of the sweepstakes.

Several leading electric two-wheeler players, such as Hero Electric, Okinawa, and Ampere owned by Greaves Electric Mobility, have witnessed a substantial decline in registration of their vehicles as they confronted demands from the government to return subsidies for allegedly violating the FAME-II localisation norms. Greaves a few days ago paid ₹124 crore demanded by the government to settle the issue.

The overall electric two-wheeler market to hit 60,924 registrations as on the penultimate day of October, according to the VAHAN dashboard of the Ministry of Road Transport and Highways. With 18 per cent growth, Bajaj witnessed 8,382 registrations of its vehicles; the figure for Ola Electric was 22,192 as on October 30, against 18,699 in September. TVS registrations remained nearly flat at 15,530




Note: Registrations only for the top four have been depicted; *data until October 30

vehicles. Ather dropped to fourth spot with registrations of 7,967 vehicles.

However, the overall e2W registration has witnessed a decline vis à vis January, when 61,774 such vehicles were registered. In March, this figure further rose to 82,456 grew over 15 per cent over the previous month and then peaked in May at 101,329. In May, the government had announced a sharp reduction in FAME-II subsidies, pushing e2W players to aggressively sell and exhaust their inventory.

In June, e2W registrations declined to 44,000 as companies increased the prices of their models. Since then, the recovery has



Electric vehicle penetration continues to improve at a healthy pace, spurred by government support in the form of subsidies, enhanced awareness, and increasing product launches, according to ICRA's research, published on Tuesday. It expects electric bus, two-wheeler and three-wheeler penetration to grow significantly by FY25.

The report highlights that the electric twowheeler (e2W) segment has emerged as a frontrunner, accounting for 85-90 per cent of total EV sales in FY23. Penetration of e2Ws in the overall two-wheeler sales increased nearly 5 per cent. The segment is projected to increase its penetration by 10–12 per cent in FY25, indicative of its ongoing popularity.

Electric three-wheelers have gained traction, achieving a 7 per cent penetration rate in FY23 (excluding the rickshaw segment); peneration is likely to be 14-16 per cent in FY25. Meanwhile, e-buses, buoyed by government measures, have surged with over 1,800 units sold in FY23. Penetration is predicted to rise to 11-13 per cent in FY25.

Electric cars are also gaining traction. ICRA predicts e-car penetration to be 4-6 per cent in FY25. Compiled by Anjali Singh

REVVING UP

Penetration across segments

Segments	FY23	FY25P*	FY30P*					
e2W	5%	10-12%	30%					
e3W	7%	14-16%	40%					
e-buses	7%	11-13%	40%					
e-cars	1%	4-6%	15%					
e-LCV	Negligible	4-6%	25%					
(Excludes rickshaw segment)								

Source: ICRA Research; *projected

Penetration of e2W	Penetration of e-buses
Year e2W penetration	Year
FY20	e-bus penetration
0.10%	FY20
FY21	1.0%
0.30%	FY21
FY22	2.0%
1.90%	FY22
FY23	4.0%
4.50%	FY23
Source: VAHAN, DHI, ICRA	7.0%

JAMSHRI REALTY LIMITED CIN: L17111PN1907PLC000258 egd. Office: Fatehchand Damani Na Station Road, Solapur – 413 001. Email: jammill1907@gmail.com

NOTICE NOTICE is hereby given that the Meeting the Board of Directors of the Company will be neld on Monday, the 6th November ,2023, a Churchgate Mumbai 400020, at 5.00 pm (S.1 consider the Unaudited Financial Results of the Company for the 2nd Quarter and Hal

ear ended on 30° Sept 2023. For JAMSHRI REALTY LIMITED Date: 31.10.2023 RAJESH DAMAN



Providers/System Integrators (SI) for providing Threat Intel Platform with integration of many Open Source and premium feeds for providing enriched threat intel to SIEM. The last date of documents submission is 06/11/2023. Interested parties to visit https://tenders.ongc.co.in for further details.

E-Auction: C&C Constructions Limited (in Liquidation) (CIN: L45201DL1996PLC080401)

Liquidation of C&C Constructions Limited as per blocks of assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Announcing the Sale of C&C Constructions Limited ("Corporate Debtor") as per blocks of assets under liquidation pursuant to

NCLT (Principal Bench, New Delhi) order dated 07th October 2022, through public e-auction process. nterested applicants may refer to the detailed Asset Sale Process Memorandum uploaded on website of the C&C Constructions Limited http://www.candcinfrastructure.com/liquidation.php and also on E-Auction website

https://ncltauction.auctiontiger.net. The Auction Sale will be done through the E-Auction platform: https://ncltauction.auctiontiger.net.

Limited Concern with full adoption/ (exclusive of GST, (applicable for any of the blocks	Corporate Debtor	Manner of Sale	Date and time of Auction	Reserve Price (INR)	EMD Amount & Submission deadline
taking over of all live BGs issued by banks for C&C Constructions Limited in favour of various customers/authorities. OR Block of Assets-2: Entire Arbitration Portfolio of C&C Constructions TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets-2: [NR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties).		Corporate Debtor as Going Concern with full adoption/ taking over of all live BGs issued by banks for C&C Constructions Limited in favour of various customers/authorities. OR Block of Assets-2: Entire Arbitration Portfolio of C&C Constructions	till 05:30 PM of 24th November 2023	INR 143 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties). OR Block of Assets- 2: INR 50 Crores (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes &	Rs. 5 Crore On or before 15th November 2023 (applicable for any of the blocks). Kindly note, Block 2 shall come into effect only in case there is no eligible EOI for block 1. In such a case, the EOI for Block 2 shall be considered as void ab initio and the EMD, if received shall be refunded after receipt of performance bank guarantee from the successful bidder of Block 1.

Please feel free to contact Mr. Navneet Kumar Gupta at navneet@minervaresolutions.com in case any further clarification is required. Navneet Kumar Gupta

Date: 31st October 2023

(Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009



Extract of Un-Audited Financial Results for Quarter and Half Year ended 30th September, 2023

													(3 in anan
Standalone Consolidated					idatad		(₹ in cro						
		-					v	_		Consol			v .
S.No.	Particulars		uarter ende		Half yea		Year ended		rter ended		Half yea		Year end
	T di tiodidi 5	30/09/23	30/06/23	30/09/22	30/09/23	30/09/22	31/03/23	30/09/23	30/06/23	30/09/22	30/09/23	30/09/22	31/03/2
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
1	Total income from operations (net)	12,532.01	11,656.05	15,985.73	24,188.06	30,249.55	59,899.35	12,532.57	11,656.38	15,985.73	24,188.95	30,249.55	59,899.3
2	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	1,101.95	1,062.12	993.88	2,164.07	1,930.94	4,334.54	1,098.79	1,060.01	987.16	2,158.80	1,906.24	4,282.
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	1,101.95	1,062.12	993.88	2,164.07	1,930.94	4,334.54	1,139.62	1,091.56	1,035.28	2,231.18	1,996.18	4,420.2
4	Net Profit from ordinary activities after tax	818.10	789.85	744.25	1,607.95	1,445.15	3,239.94	855.74	819.28	785.73	1,675.02	1,510.56	3,325.8
5	Other Comprehensive Income	(4.24)	-	(1.40)	(4.24)	(1.40)	(5.68)	(4.19)	0.01	(1.33)	(4.18)	(1.36)	(4.3
6	Total Comprehensive Income	813.86	789.85	742.85	1,603.71	1,443.75	3,234.26	851.55	819.29	784.40	1,670.84	1,509.20	3,321.4
7	Equity share capital	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.0
8	Other Equity (excluding revaluation reserve)	-	-	-	-	-	13,434.74	-	-	-	-	-	13,764.5
9	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each)												
	a) Basic (Rs)	5.45	5.27	4.96	10.72	9.63	21.60	5.70	5.46	5.24	11.17	10.07	22.1
	b) Diluted (Rs)	5.45	5.27	4.96	10.72	9.63	21.60	5.70	5.46	5.24	11.17	10.07	22.
				(not annua	lised)		(annualised)			ot annualis	ed)		(annualise

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 30th October 2023. The Statutory auditors of the Company have carried out Limited review of the aforesaid results.

2. The above is an extract of the detailed format of the Statements of limited review of Standalone and Consolidated Financials Results, for the quarter ended 30° September 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (listing and other disclosure requirements) Regulations' 2015. The full format of the Statements of Un-audited Standalone and Consolidated Financials results are available on the websites of National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange and the website of the company (www.petronetlng.in).

Date: 30th October 2023

Word Trade Center, 1st Floor, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi-110001 CIN: L74899DL1998PLC093073







www.petronetIng.in

Vinod Kumar Mishra





Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2023

(₹ in Crores)

SI.			Quarter Ende	d	Year	Year Ended	
No.	Particulars	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Jun/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/Mar/23 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	587.43	916.37	650.79	1,503.80	1,484.73	2,889.50
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	7.49	68.04	16.72	75.53	74.13	222.79
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	7.49	68.04	16.72	75.53	74.13	222.79
4.	Net profit / (loss) for the period after tax	5.43	45.41	11.54	50.84	50.84	157.99
5.	Total comprehensive income for the period	5.82	45.51	11.35	51.33	50.10	157.73
6.	Paid-up equity share capital	66.38	66.38	66.38	66.38	66.38	66.38
7.	Other equity (as at year end)	-	-	-	-	-	976.18
8.	Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :						
	a) Basic (₹ per share)	0.81	6.83	1.72	7.64	7.64	23.72
	b) Diluted (₹ per share)	0.81	6.83	1.72	7.64	7.64	23.72

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on October 31, 2023. The joint statutory auditors have carried out a limited review of these financial results.
- 2 Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- U.P. Government has redetermined higher levy molasses obligation for the molasses year 2022-23. Financial results for the quarter ending September 30, 2023 are drawn after considering the impact thereof of Rs 18.83 Crores. Accordingly Profit for the quarter and period is lower by Rs
- The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com and on Company's website https://www.dhampursugar.com

The key Standalone information is as under:

	Quarter Ended			Year	Year Ended	
Particulars	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Jun/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/Mar/23 (Audited)
Total revenue	585.57	915.86	615.50	1,501.43	1,440.13	2,840.75
Profit before tax	6.51	67.81	15.86	74.32	69.68	215.10
Profit after tax	4.45	45.18	10.68	49.63	46.39	150.30
Other comprehensive income (OCI)	0.39	0.10	(0.19)	0.49	(0.74)	(0.26)
Total comprehensive income	4.84	45.28	10.49	50.12	45.65	150.04

5 Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary

For and on behalf of the Board

Sd/-

Gauray Goel Vice Chairman & Managing Director

India Ratings & Research (A Fitch Group Company) has upgraded the Company's ratings for long-term loans, fixed deposit and issuer rating to AA- from the existing A+. The existing A1+ rating for working capital limit has been reaffirmed.



Place: New Delhi

Dated: October 31, 2023

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761 CIN - L15249UP1933PLC000511,

> Phone No - 011-41259400 Email: investordesk@dhampursugar.com

Website: www.dhampursugar.com

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

्रे चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्याधेश, 2002 (2002 का अध्याधेश 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त

अध्याधात्र 3) के अतगत आर प्रतिभृति हित (प्रवतन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पाउँत धारा 13(12) के अतगत प्रदत्त शिक्तयों के अनुपालन में डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे तालिका में वर्णित अनुसार मौजूदा सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नामित ऋणियों, सह—ऋणियों / गारंटरों को बुलाने के लिए नीचे तालिका में वर्णित अनुसार मांग सूचना जारी की थी। ऋणी व सह—ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा ऋणी, सह—ऋणी / गारंटर और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित अनुसार तिथियों पर उक्त नियमवली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्याधेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूपण, सह—ऋणी / गारंटर व सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती

है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी व्यवहार मांग सूचना में वर्णित अनुसार राशि और उसपर भावी ब्याज के लिए मैसर्स डीसीबी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.		ऋणी, सह—ऋणी, गारंटरों व कानूनी वारिसों का नाम	मांग सूचना तिथि व राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
1.	DRMBGHZ00440094	श्री धर्मेंद्र और सुश्री कृष्णा	17.08.2023 / रु. 12,22,154.83 / — 17.08.2023 तक देय	खसरा नं. 846 गांव —सददुल्लापुर परगना व तहसील—दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, नोएडा उत्तर प्रदेश — 203207	28-10-2023
2.	DRBLN0I00530168 and DRBLN0I00456789	कपिल शर्मा, मणि शर्मा, श्री एमवीएमपी ड्रीम होम सोल्यूशन्स और रूचि शर्मा	17.08.2023 / रु. 56,80,915.62 / — 17.08.2023 तक देय	संपत्ति नं. सी–61 का भाग, मेन रोड चमन विहार, लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201102	30-10-2023
3.	DRHLDEL00480319	किरण पाल व संतोष देवी	03.07.2023 / रु. 16,03,690.29 / — 03.07.2023 तक देय	डी—18 / 2, खसरा नं. 221 गांव — लोनी बाबा नगर कॉलोनी परगना व तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102	30-10-2023

दिनांकः 01.11.2023 स्थानः गाजियाबाद, उ.प्र. हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

बिजाज हाजारा। प्रश्न कार्यात्वय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र — 411 014 शाखा कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र — 411 014 शाखा कार्यालय : प्रथम तल मिलरटोन बिल्डिंग, सिटी यूनियन बैंक वोडाफोन आउटलेट के ऊपर, निकट माया बाजार, अजमेर रोड, किशनगढ़—305801 (राजस्थान)

किशनगढ़—305801 (राजस्थान) बित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की घारा 13 (2) के तहत मांग सूचना अधोहस्ताबारी मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदहारा निम्नलिखित सूचना कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड हारा उनको सम्पत्ति के ऐवज में दिए गए आवार ऋष(पी) /ऋष(पी) के मुल्बन और उसपर उदमूत ब्याज एवं अन्य प्रमारों के प्रतिमुनतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्तरूप ऋण अनार्जक आरित (एनपीए) हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूत्तिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अविनयम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं, उनके अंतिम ज्ञात पते पर, जारी की गई थीं। तथापि वे बिना सुपुर्दगी/बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः कर्जदार(सें)/सह-कर्जदार(सें) को इस प्रकाशन के माध्यम से सुचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविवाओं के तहत बकाया रशियों का गुगतान करें।

65	, 3	
ऋण खाता संख्या / कर्जदार(रॉ) / सह–कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) का नाम एवं पता	प्रतिभूत /बंघक अचल आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का पता	मांग सूचना तिथि और राशि
शाखा : किशनगढ़	निम्न वर्णितानुसार गैर-कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम लडारिया,	19-10-2023
(एलएएन नंबर : H4Q5ECN0382493 तथा	पंचायत समिति – डीडवाना, तहसील कूचामन सिटी, जिला नागौर,	
H4Q5FRL0332293)	राजस्थान, भूमि क्षेत्रफल 336.00 वर्ग फीट, पूरव : राम प्रताप अग्रवाल का मकान,	(रूपए छह लाख
 शिवपाल वैष्णव (कर्जदार) 	पश्चिम : निकाल एवं रास्ता, उत्तर : मोती लाल, राम निवास दुबे की दुकान,	छह हजार चार
 बंकटलाल वैष्णव (सह–कर्जदार) 	दक्षिण : रामबागर, हजारी लाल का बाड़ा	सौ चौवन मात्र)
3. मंगल चंद (सह–कर्जदार)		
उपरोक्त सभी का पता : 89, जैन मंदिर लंडादिया, तहसील		
0 0 1		

यह कदम सूबना की वैकल्पिक तामील हेतु उठाया जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह—कर्जदारों गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे बकाया राशि का भुगतान इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधि को बाज 13 (4) के प्रावकानों के अनुसार प्रतिषूत्ति आसित्र/बंधक सम्पत्ति व्य कक्का लेने हेतु आगे कार्यवाही (बजाज हाउसिंग फाइनैस लिमिटेड के पास उप उपायों को प्रतिकृत प्रमावित किए बगैर) की जाएगी। उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सजित नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, जिन पर कि बजाज हाउसिंग फाइनैं

तिथि : 01-11-2023 स्थान : नागौर प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड



पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय, राजेंद्र प्लेस और कॉर्पोरेट कार्यालय, पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली में हाउसकीपिंग और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए Goverment e-Marketplace (GeM) पर पात्र सेवा प्रदाताओं से निविदा आमंत्रित करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया GeM पोर्टल या बैंक की वेबसाइट https://punjaband sindbank.co.in/ पर जाएँ । सहायक महाप्रबंधक दिनांक 01.11.2023

दुद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूवि एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकट आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सचीकरण विनियम 2015) के विनियम 29, 33, 47 तथा अन्य किसी भी विनियम, यदि लागू है, के अनुपालन के तहर 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाई के लिए कंपनी के अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणा सहित अन्य विषयों पर विचार करने एवं अनमोद हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवा नवम्बर 2023 को नर्द टिल्ली में आयोजित होगी

कृते कम्पीटेंट ऑटोमोबाइल्स कं. लि स्थान : नई दिल्ली रवि अरोड दिनांक : 31 .10 .2023

हमारी शाखाओं में लॉकरों के किराया बकाया हेतु नोटिस

सर्कल ऑफिसः ईस्ट दिल्ली. स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

कि पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नीचे तालिका में यथाउत्लिखित संबंधित लॉकर किरायेदारों को सेफ डिपोजिट वॉल्ट्स (लॉकर्स

लॉकर किरायेदारों द्वारा किराया भगतान नहीं किया है और जनके खिलाफ किराया का बकाया है। बैंक ने लॉकर किराये के बकाया अतिदेय के भगतान हेत संबंधित लॉकर किरायेदारों को तीन नोटिस जारी किए किंतु अभी तक किराये का भगतान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	शाखा	ग्राहक का नाम	लॉकर नंबर
	दिल्ली, सिविल लाइन्स	महेश चंद खंडेलवाल	AB01974
2	न्यू दरियागंज	गौरी शंकर	FF00399
3	बैंक स्ट्रीट	कपिलाधींगरा रमेश धींगरा	AH00621
1	गुरूद्वारा रोड	तेजस्वी कुमार और साधना कामरा	AA00027
5	गुरूद्वारा रोड	इंदू बाला शर्मा	BD02545
6	गुरूद्वारा रोड	शीलासिजा	BK03201
7	शाहदरा	विद्या	RR01119
3	शाहदरा	डीएन शर्मा और एल एन शर्मा	LL00628
9	कमलानगर	राज रानी पाठक	AG00529
10	कमलानगर	तिलक राज मल्होत्रा	AJ01294
11	गाँधी नगर	पिंकी शर्मा	OO01281
12	आरपी बाग	परमोद लांबा और सुधाा	PP01289
3	आरपी बाग	हरदीप सिंह	FF00509
4	आरपी बाग	सुभाषिनी जैन	BB00176
5	न्यू रोहतक रोड	आंचल कौर बिंद्रा	AL00978
6	कृष्णा नगर	अमित भंडारी	AO02310
17	कृष्णा नगर	मोहिंदर पाल गुप्ता	AI01787
18	कृष्णा नगर	ऊषा रानी अरोरा	AJ01850
19	मॉल रोड	रावेल वोहरा	AO01111
20	मॉल रोड	मोज्जम अली	AW01756
21	प्रीत विहार	बिंदू कपूर	AB02156
22	प्रीत विहार	प्रदीप जैन आरती जैन	AN03205
23	शकरपुर	बसंत कुमार मिश्रा	DD00351
24	यमुना विहार	बी के शर्मा	BB00150
25	यमुना विहार	फतेह बहादुर सिंह	EE00373
26	मधुबन	साजिद हुसैन	HH00651
27	मधुबन	नाजनीन	CC00269
28	आनंद विहार	सुनील कुमार भारद्वाज	FF00374

किराया विलेख के खंड सं. 9 के अनुपालन में संबंधित लॉकर किरायेदार के हर्ज-खर्चे पर लॉकर तोड़कर खोले जायेंगे और बैंक लॉकर की समस्त अंतर्वस्तुओं या इसके किसी भाग की सार्वजनिक अथवा निजी बिक्री द्वारा अपने देयों की वसूली करेगा। बैंक के देयों को पूरा कर दिए जाने के बाद शेष कोई राशि और/या लॉकर की अंतर्वस्तु बैंक द्वारा संबंधित लॉकर किरायेदार के पूर्ण जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर बैंक के अधिका में रखे जायेंगे। ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि के बैंक देयों की वसूली के लिए अपर्याप्त होने पर लॉकर किरायेदार कमी के लिए देनदार होगा।

दिनांकः 01.11.2023, स्थानः दिल्ली

सर्कल ऑफिसः ईस्ट दिल्ली, पंजाब नैशनल बैंक



केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-90, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली-110 020 फोन: 91-11-26818840/26818642, वेबसाइट: <u>www.kei-ind.com</u>, ई—मेल आईडी: <u>cs@kei-ind.com</u>



						(्रिमिलियन में)
		स्टैंर	उ अलोन पर्	रेणाम	समे	कित परिण	ाम
क्र सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.09.2023		समाप्त 30.09.2022	तिमाही समाप्त 30.09.2023	अर्द्धवार्षिक समाप्त 30.09.2023	तिमाही समाप्त 30.09.2022
		अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षात	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	19,542.31	37,451.36	16,133.43	19,542.31	37,451.36	16,133.43
2.	शुद्ध लाभ / (हानि) की अवधि के लिए (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों से पहले#)	1,884.24	3,514.27	1,437.69	1,884.24	3,514.20	1,437.54
3.	शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले की अवधि के लिए (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद#)	1,884.24	3,514.27	1,437.69	1,884.24	3,514.20	1,437.54
4.	शुद्ध लाभ / (हानि) कर के बाद की अवधि के लिए (अपवाद और /या असाधारण मदों के बाद#)	1,402.06	2,615.92	1,068.99	1,402.06	2,615.85	1,068.84
5.	कुल व्यापक आय अवधि के लिए [शामिल लाभ/ (हानि) अवधि के लिए (कर पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)]	1,403.43	2,616.03	1,070.16	1,403.45	2,615.99	1,070.06
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	180.48	180.48	180.38	180.48	180.48	180.38
7.	संचेय (पुनर्मूल्यांकन संचेय को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है)	-	-	-	-	-	-
8.	1. मूलिः	15.54	29.00	11.86	15.54	29.00	11.86
	2. तनुकृतः	15.51	28.94	11.85	15.51	28.94	11.85

समेकित तिमाही और अर्द्धवार्षिक अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामा के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप रूप है। स्टैंडअलीन और समेकित तिमाही और अर्द्धवार्षिक अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रास्प स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइंट्स <u>www.bseindia.com, www.nseindia.com</u> औरकंपनी की वेबसाइंट्

www.kei-ind.com पर भी उपलब्ध हैं। ब. #_Ind-AS नियमों / AS नियमों, जो भी लागू हो, के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं को समायोजित किया गया

कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ताक्षर करने का स्थानः नई दिल्ली

रसा. / __ (अनिल गुप्ता) चेयरमैन–सह–मैनेजिंग डायरेक्टर डीआईएनः 00006422

AI	ITYA BIRLA
	APITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266 शाखा कार्यालय : विजया भवन, द्वितीय तल, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली — 110001

धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

॥। निम्न वर्णित ऋणकर्ता ने अनुसूची के अंतर्गत वर्णित संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्न वर्णित व्यक्ति ऋणानुबंध के लिए ऋणकर्ता /सह–ऋणकर्ता एवं गारंटर के रू ं खड़े हुए हैं। आपके द्वारा की गई चुकों के परिणामस्वरूप, निम्न वर्णित आपके ऋण खाता को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षे में सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत अनार्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम, आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर, संशोधितानुसा प्रतिनृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचनाओं की विषयवस्तु यही है कि आप, आपको स्वीकृत विनिन्न ऋणों के भुगत में चूक कर चुके थे। अतः, यह वर्तमान प्रकाशन जो है वह सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निमयावली 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान

अनुसार आम एक सूचना प्रसारन हतु प्रकाशित क्या नवा है।	100		
ऋण खाता संख्या/खाता, ऋणकर्ता(ऑ)	प्रवर्तित की जानेवाली	मांग सूचना की	मांग सूचना
एवं गारंटर(रों) का नाम तथा पता	प्रतिमृति के विवरण	तिथि/	के अनुसार देयराशि
		एनपीए तिथि	J
उत्पाद- संपत्ति के समक्ष ऋण	समस्त वह भाग तथा अंश :	18.10.2023	रु. 44,18,755 / — (रुपये
ऋण खाता संख्या :	"जो संपत्ति सं. 8–ए, ऊपरी	10.102.20	चौवालीस लाख अट्डारह
ABND_LAP000000505195 1. श्री राजेश कुमार, एलेट नंबर 101, दूसरी मंजिल, पॉकेट 5, सेक्टर 22, रोहिणी, नई दिल्ली — 110085,	भू तल (छताधिकार के बिना),	एनपीए	हजार सात सौ पचपन मात्र)
अन्य पता : 595 बी, गली नंबर 1, श्री नगर, हनुमान मंदिर के पास, शक्र बस्ती, नई दिल्ली – 110034,		13 अक्ट्बर 23	दिनांक 18.10.23 तक
अन्य पता : संपत्ति सं. ८–ए, ऊपरी भू तल, खसरा संख्या 12 / 15, ग्राम मटियाला, शिव विहार, सेवक	ग्राम मटियाला, शिव विहार,		बकाया मूलधन, शुल्कों
पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली — 110059	सेवक पार्क, उत्तम नगर,		(प्रोदभूतकृत विलंब
2. श्रीमती मीना गुप्ता, पलैट नंबर 101, दूसरी मंजिल, पॉकेट 5, सेक्टर 22, रोहिणी, नई दिल्ली — 110085, अन्य पता : डब्ल्युजेड — 595 बी, गली नंबर 1, श्री नगर, हनुमान मंदिर के पास, शकुर बस्ती,	दिल्ली - 110059 में		शुल्कों सहित) तथा ब्याज के
अन्य पता : खब्ल्यूजंड — 595 था, गली नवर 1, आ नगर, हनुमान मादर के पास, राकूर बस्ता, नई दिल्ली — 110034, अन्य पता : संपत्ति संख्या 8–ए, ऊपरी भृतल, खसरा संख्या 12/15, ग्राम मटियाला,	रिथत है"।		माध्यम से
शिव विहार, सेवक पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059			

गापको एतदद्वारा **आदित्य बिङ्ला फाइनेंस लिमिटेड** को उक्त मांग सूचना की तिथि से 60 दिक्सों की अवधि के अंदर ब्याज एवं लागत के साथ उपर्युक्त राशि का भुगतान करने क निर्देश दिया जाता है। भुगतान करने में विफल रहने पर **आदित्य बिङला फाइनेंस लिमिटेड** समस्त अथवा किसी एक अथवा एकाधिक प्रतिमृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम व प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कार्रवाई करेगी, जिस कार्रवाई में ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों की प्रतिमृत परिसंपत्तियों का अधिप्रहण करना सम्मिलित होंगा। उत्तर अधिनिय के अंतर्गत **आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड** के पास उपलब्ध शक्ति में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित हैं— (1) प्रतिमृत परिसंपत्तियों को छुडवाने के लिए विक्रय के सम्मुदेशन, पट्ट के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित ऋणकर्ताओं / गारंटरों की प्रतिबृत परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण करने की शक्ति, (2) पट्टा, समनुदेशन के माध्यम से अथवा विक्रय द्वार स्तांतरण करने के अधिकारों सहित प्रतिभत परिसंपत्तियों का प्रबंधन हाथ में लेना और प्रतिभत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा **आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा किया जानेवाल मतिमृत परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, समस्त अधिकारों एवं हस्तांतरित प्रतिभृत परिसंपत्तियों के संबंध में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है उक्त अधिनियम की घारा 13(13) के प्रावधानों के अनसार, आपको एतदद्वारा उपरोक्त संदर्भित तथा **आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड** के पास दष्टिकंधककत / बंधककत किसी भी प्रतिबत गरिसंपत्ति को, **आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड** की पूर्व सहमति के बिना, विक्रय या पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरि करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान : दिल्ली प्राधिकत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 01-11-2023

າ ≀lishti

Place: New Delhi

Dated: October 31, 2023

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि, हाउसिंग फावनान्स लिमिटेड (आईएचएफएल) अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियर असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार श्री शैलेंद्र, श्रीमती राजवंती, श्री संतोष कुमार गर्ग और श्री पंकज को 11.06.2018 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HHLNO100297778 की राशि रू.25,39,502 /- (रुपए पच्चीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ दो मात्र) और 11.06.2018 📑 अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहः करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा **आईएचएफएल ने** दिनांक 30.09.2021. के असाइनमेंट करार द्वारा ईएआरसी टस्ट - एससी 439 के टस्टी के रूप में एडलवाड़ज एसेट रिकंस्टक्श **कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणों के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है। फिर ईएआरसी ट्रस्ट - एससी 439 के ट्रस्टी के रूप में एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटे ने दिनांक 25.08.2023 के असाइनमेंट करार दारा प्रशास्त्रीआईएल-सीपीएस- IV के टस्टी के रूप र एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक औ इन्टेस्ट को सोंपा गया है।

कब्चा सूचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनत को सूचना[ँ]दी जाती है कि, **एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी** के रूप में **एसेट् रिकंस्ट्रक्श** कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रुल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 26.10.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततृद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राष्ट्री रू 25.39.502 /- (रुपा पच्चीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ दो मात्र) 11.06.2018 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी के रूप में एसेट् रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है अचल संपत्ति(यों) का विवरण

डीडीए बिल्ट अप फ्री होल्ड जनता फ्लैट नं.85-ए (प्लिन्थ एरिया मापित 25 स्के.मी.) पॉकेट -॥ में तल मंजिल पर, दो मंजिला, मादीपुर में स्थित, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली-110063।

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक :26.10.2023 एसेट् रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड स्थान :नई दिल्ली एआरसीआईएल-सीपीएस- IV के ट्रस्टी के रूप मे



स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड

तीसरी मंजिल, आईडीबीआई टावर, डब्ल्यूटीसी कॉमप्लेक्स, कफे रोड, मुंबई-400 005। वेबसाइटः www.sasftrust.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति प्रत्याभृत ऋणदाता के पास गिरवी पर रखी गई/प्रभारित की गई थी. स्टेस्ड एसेटस स्टैबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) प्रत्याभत ऋणदाता के अधिकत अधिकारी द्वारा उस पर भौतिक कब्जा कर लिया गया है, जिसे मैसर्स सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) तथा श्री हेमंत काबरा तथा श्री अरविंद काबरा (गारंटीदाताओं) से प्रत्याभूत ऋणदाता की बकाया रकम रु. 157,08.59 लाख (दिनांक 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार) साथ में अन्य ऋणदाताओं की बकाया रकम की वसूली के लिए "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "वहां जो कुछ है" के आधार पर दिनांक 16.11,2023 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 123 लाख (रुपये एक सौ एवं तेईस लाख मात्र) होगा तथा बयाना राशि जमा रु 12 30 लाख (रुपये बारह लाख तीस हजार मात्र) होगा।

ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो, के साथ अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पूनजिया, पटवार एरिया जरोदा कलां, भू अभिलेख एरिया मेड़ता रोड, तहसील मेड़ता, जिला नगौर, राजस्थान-341511 में स्थित खसरा नं. 77 (नया)/63/2 (पुराना), खाता नं. 138 (नया)/128 (पुराना) में स्थित "सर्वोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड" के नाम से ज्ञात 12 बीघा एवं 10 बिस्वा परिमाप की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि अथवा जमीन का सम्पर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।

इच्छुक पार्टियां आगे की किसी भी जानकारी के लिए श्री सेनापति नाग से : (टी) +91 22 66552214, (मो) +91 8691944422 (ईमेल) n.senapati@idbi.co.in, श्रीमती जानकी विश्वनाथन से (टी) +91 22 66263984, (एम) +91 9869109056, (ईमेल) v.janaki@idbi.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.sasfturst.com, www.idbibank.in, www.bankeauctions.com में प्रदत्त बोली/निविदा दस्तावेज देखें।

तारीखः 1 नवम्बर, 2023 अधिकृत अधिकारी, स्थान : मंबई एसएएसएफ





Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months ended September 30, 2023

(₹ in Crores)

SI. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended		Year Ended
		30/Sep/23 (Unaudited)	30/Jun/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/Mar/23 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	587.43	916.37	650.79	1,503.80	1,484.73	2,889.50
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	7.49	68.04	16.72	75.53	74.13	222.79
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	7.49	68.04	16.72	75.53	74.13	222.79
4.	Net profit / (loss) for the period after tax	5.43	45.41	11.54	50.84	50.84	157.99
5.	Total comprehensive income for the period	5.82	45.51	11.35	51.33	50.10	157.73
6.	Paid-up equity share capital	66.38	66.38	66.38	66.38	66.38	66.38
7.	Other equity (as at year end)	-	-	-	-	-	976.18
8.	Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (not annualised) :						
	a) Basic (₹ per share)	0.81	6.83	1.72	7.64	7.64	23.72
	b) Diluted (₹ per share)	0.81	6.83	1.72	7.64	7.64	23.72

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on October 31, 2023. The joint statutory auditors have carried out a limited review of these financial results.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- U.P. Government has redetermined higher levy molasses obligation for the molasses year 2022-23. Financial results for the quarter ending September 30, 2023 are drawn after considering the impact thereof of Rs 18.83 Crores, Accordingly Profit for the quarter and period is lower by Rs
 - The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on stock exchange websites i.e https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com and on Company's website https://www.dhampursugar.com.

The key Standalone information is as under:

(*									
		Quarter Ended			Year Ended				
Particulars	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Jun/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	30/Sep/23 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/Mar/23 (Audited)			
Total revenue	585.57	915.86	615.50	1,501.43	1,440.13	2,840.75			
Profit before tax	6.51	67.81	15.86	74.32	69.68	215.10			
Profit after tax	4.45	45.18	10.68	49.63	46.39	150.30			
Other comprehensive income (OCI)	0.39	0.10	(0.19)	0.49	(0.74)	(0.26)			
Total comprehensive income	4.84	45.28	10.49	50.12	45.65	150.04			

5 Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary

For and on behalf of the Board

Sd/-Gauray Goel

Vice Chairman & Managing Director

India Ratings & Research (A Fitch Group Company) has upgraded the Company's ratings for long-term loans, fixed deposit and issuer rating to AA- from the existing A+. The existing A1+ rating for working capital limit has been reaffirmed.

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761 CIN - L15249UP1933PLC000511,

Phone No - 011-41259400

Email: investordesk@dhampursugar.com Website: www.dhampursugar.com